

an>

Title: Regarding problems being faced by seven mandals of Telangana which merged with Andhra Pradesh.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to raise an important issue regarding the voters of my parliamentary constituency who are now in other State. मैं गवर्नमेंट से जानना चाहता हूँ तथा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह समस्या आपको भी मालूम है। यह आदिवासी लोगों की समस्या है। हमारे यहां के 60 हजार आदिवासी लोगों को सात मंडल के जरिए आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था। ये 60 हजार लोग मुझे वोट देकर जिताए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 60 हजार लोगों के एम.पी. कौन हैं, एम.एल.ए. कौन हैं और ये लोग अपनी समस्या के बारे में किससे पूछेंगे? ये लोग बहुत ही पैथेटिक कंडिशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी राज्य में कहीं भी मीटिंग हो, हमारे कई नेता यहां पर बात करते हैं कि यहां पर आदिवासी व जनजाती लोग हैं, हम लोग उनका भला कर रहे हैं। मैं जिस दिन से पार्लियामेंट में आया हूँ, उसी दिन से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि उनका एम.पी. कौन है, पहले यहां पर हमारा हेडक्वार्टर भद्राचलम था, जहां पर भगवान श्रीरामचंद्रमूर्ति जी का मंदिर है। यहां पर लोग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, ये लोग अभी भी मेडिसिन जैसे आवश्यक चीजों के लिए इधर आ रहे हैं।

**12.27 hours** (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

वहां पर जो लोग हैं, उन लोगों को वन हंड्रेड-टू हंड्रेड किलोमीटर तक बाहर जाना होता है। इनके बारे में कम से कम इतना सोचना चाहिए कि इनका कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सोचना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude now. You are telling some other thing.

प्रो.ए.एस.आर.नायक : दूसरे, वहां पर चार ग्राम पंचायत हैं। मैं आदिवासी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक स्ट्रोक में वहां के 60 हजार आदिवासी लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। अगर आप मुझे इनके लिए एक मिनट का समय बोलने के लिए नहीं देते हैं, तो मैं यहां पर क्या करूँ? These seven Gram Panchayats have been shifted on the pretext of Polavaram project. यह ठीक है कि ये लोग दूसरी तरफ चले गए हैं। ये चार ग्राम पंचायत सब-मर्ज्ड नहीं हैं। भद्राचलम के बाद जो ग्राम पंचायत है, वहां से आंध्र प्रदेश का रीजन आ जाता है। आदिवासी लोग वहां से कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से रिवेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। वहां के लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Prof. A.S.R. Naik.